



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 28 ] नई दिल्ली, जुलाई 8—जुलाई 14, 2007, शनिवार/आषाढ़ 17—आषाढ़ 23, 1929  
No. 28 ] NEW DELHI, JULY 8—JULY 14, 2007, SATURDAY/ASADHA 17—ASADHA 23, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून, 2007

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चिकित्सा महाविद्यालय, पुदुचेरी समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (डाइवर ग्रेड-I और डाइवर-II) भर्ती नियम, 1996 से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी में चालक विशेष श्रेणी, चालक-श्रेणी-I, चालक श्रेणी-II और चालक साधारण श्रेणी (समूह "ग" पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी [चालक-विशेष श्रेणी, चालक श्रेणी-I, चालक श्रेणी-II और चालक-साधारण श्रेणी (समूह "ग" पद)] भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **प्रारम्भिक गठन.**—उन व्यक्तियों को, जिन्होंने इन नियमों के आरम्भ के समय नियमित आधार पर चालक (विशेष श्रेणी), चालक (ग्रेड-I) और चालक (ग्रेड-II) का पद धारण कर रखा है, इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किया गया माना जाएगा और उनके द्वारा इन नियमों के उक्त आरम्भ होने से पूर्व उक्त पदों पर की गई सेवाओं को अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाएगा।

6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. चालक (विशेष श्रेणी)	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो			
(8)	(9)		(10)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा					
(11)	(12)					
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे चालकों (श्रेणी-I) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।		टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ			

(12)

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता।

1. चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष, —अध्यक्ष  
जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
2. कार्यालय अध्यक्ष, जवाहर लाल स्नातकोत्तर —सदस्य  
आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
3. उपनिदेशक (प्रशासन), जवाहर लाल —सदस्य  
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
4. प्रशासनिक अधिकारी, जवाहर लाल —सदस्य  
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चालक (श्रेणी-1)	7*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति : ऐसे चालकों (श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए, चालक (श्रेणी-II) और चालक (साधारण श्रेणी) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो, जिसके लिए पाठ्यक्रम निम्नवत होगा :

1. अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ने में समर्थ होना चाहिए।
2. यातायात विनियमों का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
3. कार्यशील पेट्रोल और डीजल इंजन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और त्रुटियों का पता लगाने तथा लघु परिचालन त्रुटियों को सुधारने में समर्थ होना चाहिए।
4. कार्बुरेटर प्लग आदि को साफ करने में समर्थ होना चाहिए।

(12)

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)

**समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**

1. चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष, —अध्यक्ष  
जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
2. कार्यालय अध्यक्ष, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी —सदस्य
3. उपनिदेशक (प्रशासन), जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी —सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी —सदस्य

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चालक (श्रेणी-II)	S*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

लागू नहीं होता

(10)

लागू नहीं होता

(11)

प्रोन्नति द्वारा

(12)

**प्रोन्नति :** ऐसे चालकों (साधारण श्रेणी) में से जिन्होंने व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए, उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके लिए पाठ्यक्रम निम्नवत होगा :

1. अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ने में समर्थ होना चाहिए।
2. यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
3. त्रुटियों का पता लगाने में और लघु परिचालन मरम्मत करने में समर्थ होना चाहिए।
4. पहियों को बदलने तथा टायरों में ठीक हवा भरने में समर्थ होना चाहिए।

(12)

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- |   |          |
|---|----------|
| 1. चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष,<br>जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान<br>शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी | —अध्यक्ष |
| 2. कार्यालय अध्यक्ष, जवाहर लाल स्नातकोत्तर<br>आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी                 | —सदस्य   |
| 3. उपनिदेशक (प्रशासन), जवाहर लाल<br>स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और<br>अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी            | —सदस्य   |
| 4. प्रशासनिक अधिकारी, जवाहर लाल<br>स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और<br>अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी             | —सदस्य   |

(14)

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. चालक (साधारण श्रेणी)	6*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)
<p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
<p>(i) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो,</p> <p>(ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को यानों में लघु त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए)</p> <p>(iii) मोटरकार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव</p>		

**वांछनीय :**

भारी यान के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति ।

टिप्पण : 1-अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं। जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
<ol style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी —अध्यक्ष</li> <li>कार्यालय अध्यक्ष, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी —सदस्य</li> <li>उपनिदेशक (प्रशासन), जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी —सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी —सदस्य</li> </ol>	

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th June, 2007

**G.S.R. 139.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, of the Constitution, and in supersession of the Medical College, Puducherry Group 'C' and Group 'D' Posts Recruitment Rules, 1959, in so far as it relates to the post of Driver and the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Driver Grade I and Driver Grade II) Recruitment Rules, 1996 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driver-special grade, Driver-Grade I, Driver-Grade II and Driver-Ordinary Grade (Group 'C' Posts) in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Driver-special Grade, Driver-Grade I, Driver-Grade II and Driver-Ordinary Grade) (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

**5. Initial Constitution :**—The persons who are holding the posts of Driver (Special Grade), Drivers (Grade-I) and Driver (Grade-II) on regular basis at the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the posts under these rules and the services rendered by them in the said posts before the said commencement shall be taken into account for the purpose of promotion to the next higher grade.

**6. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**7. Power to relax:**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**8. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Driver (Special Grade)	1(One)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any		
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
By promotion		<b>Promotion :</b> From amongst Drivers (Grade I) with three years' regular service in the grade. <b>Note :</b> Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.			
If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
13		14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :-		Not applicable.			
1. Medical Superintendent/Dean Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research --- Chairman					
2. Head of Office Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research --- Member					
3. Deputy Director (Administration) Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research --- Member					
4. Administrative Officer Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research --- Member					
1	2	3	4	5	6
Driver Grade I	7(Seven)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Selection	Not applicable



7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
By promotion.	<p><b>Promotion :</b> From amongst Drivers (Grade II) with six years' regular service in the grade or with combined service of 15 years in Driver (Grade II) and Driver (Ordinary Grade), subject to passing of trade test, the syllabus for which shall be as follows :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Must be able to read English numerals and figures.</li><li>2. Must have a thorough knowledge of traffic regulations.</li><li>3. Must have good knowledge of Petrol and Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.</li><li>4. Must be able to clear carburetor, plug etc.</li></ol> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.</p>				
13	14				
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of :-</b>		Not applicable.			
1. Medical Superintendent/Dean Jawaharlal Institute of Medical Education and Research, Puducherry	— Chairman				
2. Head of Office Jawaharlal Institute of Medical Education and Research, Puducherry	— Member				
3. Deputy Director (Administration) Jawaharlal Institute of Medical Education and Research, Puducherry	— Member				
4. Administrative Officer Jawaharlal Institute of Medical Education and Research, Puducherry	— Member				
1	2	3	4	5	6
Driver (Grade-II)	5(Five)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000- 100-6000	Selection	No applicable

7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
By promotion.	<b>Promotion :</b> From amongst Drivers (Ordinary Grade) with nine years' regular service in the grade, subject to passing of trade test, the syllabus for which shall be as follows : 1. Must be able to read English numerals and figures. 2. Must have good knowledge of traffic regulations. 3. Must be able to locate faults and carry out minor running repairs. 4. Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. <b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.				
13	14				
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—</b> 1. Medical Superintendent/Dean Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Chairman 2. Head of Office Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Member 3. Deputy Director (Administration) Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Member 4. Administrative Officer Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Member		Not applicable.			
1	2	3	4	5	6
Driver (Ordinary Grade)	6(Six)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	No applicable	No
7	8	9	10		
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40. In the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates	<b>Essential :</b> (i) Possession of a valid driving licence for a Motor Car. (ii) Knowledge of motor mechanism.		Not applicable	Two years	

7	8
<p>belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limited shall be the closing date for receipt application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.</p> <p><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit Shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>(The candidate should be able to remove minor defects in vehicles)</p> <p>(iii) Experience of driving a motor cars for at least five years.</p> <p><b>Desirable :</b> Valid driving licence for a Heavy vehicle.</p> <p><b>Note :—</b>Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
11	12
Direct Recruitment.	No applicable.
13	14
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmations only) consisting of :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medical Superintendent/Dean, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Chairman</li> <li>2. Head of Office, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Member</li> <li>3. Deputy Director (Administration), Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Member</li> <li>4. Administrative Officer, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry — Member</li> </ol>	Not applicable.

[F.No.A-12018/72/2001-RR/ME-III]

K.K. JHELL, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2007

**सा.का.नि. 140.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2007 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-2 में, "IV साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप काडर पद" शीर्षक के अंतर्गत मद (ण) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता-22"

टिप्पण : "अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में समप्रदर्शक और चिकित्सा अधिकारी समूह 'ख' पद धारण करने वाले पदधारी स्वतः ही साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी की श्रेणी में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु उनका सम्मिलित किया जाना आयोग के परामर्श से उनकी उपयुक्तता के निर्धारण के अधीन रहते हुए होगा।"

[फा. सं. ए-11016/4/2001-सीएचएस-V]

एस. चक्रवर्ती, अवर सचिव

टिप्पण —मूल नियम सा.का.नि. 460(अ) तारीख 8-10-1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका निम्नलिखित सं. द्वारा संशोधन किया गया—

- (1) सा.का.नि. 633(अ) तारीख 14-10-1998
- (2) सा.का.नि. 572(अ) तारीख 27-7-1999
- (3) सा.का.नि. 262(अ) तारीख 30-3-2001
- (4) सा.का.नि. 564(अ) तारीख 30-7-2001
- (5) सा.का.नि. 22(अ) तारीख 9-1-2003
- (6) सा.का.नि. 654(अ) तारीख 31-10-2005 और
- (7) सा.का.नि. 14(अ) तारीख 13-1-2006

New Delhi, the 3rd July, 2007

**G.S.R. 140.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Health Service Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Health Service (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Schedule-II, under heading "IV General Duty Medical Officer (GDMO) sub-cadre Posts" for item (O) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

All India Institute of Hygiene and Public Health (AIHH & PH), Kolkata—

**Note :** "The incumbents holding the Group 'B' posts of Demonstrators and Medical Officer in All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata shall not automatically become members of CHS in the grade of General Duty Medical Officers, but their induction shall be subject to assessment of their suitability in consultation with the Commission".

[No. A-11016/4/2001-CHS-V]

S. CHAKRAVARTHY, Under Secy.

**Footnote :** The principal rules were published vide number GSR No. 460 (E) dated 8-10-96 and subsequently amended vide the following numbers :—

- (1) GSR No. 633(E) dated 14-10-1998
- (2) GSR No. 572(E) dated 27-7-1999
- (3) GSR No. 262(E) dated 30-3-2001
- (4) GSR No. 564(E) dated 30-7-2001
- (5) GSR No. 22(E) dated 09-01-2003
- (6) GSR No. 654(E) dated 31-10-2005 and
- (7) GSR No. 14(E) dated 13-1-2006